

## **ABM International Limited**

REGD. OFFICE: 10 / 60, IND. AREA, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015 PHONES: 25927878, 25927699, 41426055

E-mail: vkgandhi@abmintl.in | Website: www.abmintl.in CIN No.: L51909DL1983PLC015585 NSE TRADING SYMBOL - ABMINTLLTD

To,
The Manager
Listing Department.
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No, C/I, G Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051

### Symbol "ABMINTLLTD"

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Clippings of the Notice to Shareholders for Transfer of Equity Shares to Investor Education & Protection Fund as got published in the "Financial Express" and "Jan Satta" dated 23<sup>rd</sup> September, 2023.

Kindly take note of the same.

Thanking you,

Your Sincerely

For ABM INTERNATIONAL LIMITED

Amit Kumar Company Secretary 27.09.2023



Branch: B.N.Road Branch (Erstwhile Vijaya Bank) Natraj Complex. 11 B.N.Road, Qaiserbagh,

Lucknow, Ph: 7565003608 Email: vjbnro@bankofbaroda.com

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates as mentioned below.

and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount/liability and interest and other expenses thereon due from the borrowers as mentioned here in below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. in respect of time

- 0.55	ailable, to redeem the secured asset	S.	copect of title
SI. No.	Name & Address of the Borrower /Guarantors/ Date of Demand / Possession Notice	Description of immovable property	Outstanding Amount (₹)
	Healthcare Industries Pvt. Ltd. Directors: Mrs. Ravinder Kaur Srivastava W/o Mr. Mahesh Chandra Srivastava and Ms.	(1) EM of Flat no. 89 situated on 3rd floor in Lekhraj Nagina Building Sector-2, Indira Nagar, Lucknow. Owner: Mrs. Ravinder Kaur Srivastava W/o Mr. Mahesh Chandra Srivastava. Bounded by: East: Flat No. 90; West: Open to Sky and then road; North: Open to Sky; South: Open Area.  (2) EM of Flat no. 90 situated on 3rd floor in Lekhraj	92,65,807.4 + interest & other expenses

Mahesh Chandra Srivastava. Nagina constructed over Plot no. 2/1, 2/2 & 2/3, Sector-Guarantors: Mrs. Ravinder Kaur 2, Indira Nagar, Lucknow.Owner: Mrs. Ravinder Kaur Srivastava W/o Mr. Mahesh Srivastava W/o Mr. Mahesh Chandra Srivastava. Chandra Srivastava and Ms. Bounded by: East. Tiet to Common Passage. Bounded by: East: Flat No. 91; West: Flat No. 89; Rashika Srivastava D/o Mr. (3) Continuing security of Residential Flat no. 204 on Mahesh Chandra Srivastava both 2nd floor in "Coronation Bijwa Estate" situated in 28 R/o Flat no. 205, Coronation Bijwa Park Road, Ward- Vikramaditya, Lucknow. Owner: Estate Apartment, 28 Park Road, Mrs. Ravinder Kaur Srivastava W/o Mr. Mahesh Chandra Srivastava. Bounded by: East: Flat No. 205: Lucknow-226001 West: Side set back and thereafter Haider Canal: Demand Notice: 01.07.2023 North: Side set back and thereafter property of Possession Notice: 20.09.2023 Vendors: South: Flat no. 203 and Common Corridor.

Apartment, 28 Park Road Lucknow-226001 Demand Notice: 01.07.2023

Road, Mundka, New Delhi-110041.

costs and charges as per recovery certificate.

Authorised Officer, Bank of Baroda

NOTICE OF SALE OF TURNING POINT ESTATES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) Regd. Off. At: Shop No. 118, 1st Floor V Mall, Thakur Complex Kandivali East Mumbai 400101

Principal Office at: 6th Floor "Treasure Island" 11, Tukoganj Main Road Indore 452001 Madhya Pradesh (Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) The undersigned Liquidator of Turning Point Estates Private Limited (In Liquidation) ('Corporate Debtor' appointed by the Hon'ble NCLT, Mumbai, vide order dated 09.02.2023, intends to sellthe following properties forming part of the liquidation estate of Corporate Debtor through e-auction as per the

provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") and Regulations thereunder including BBI (Liquidation Process) Regulations 2016 and thus forming part of the Liquidation Estate of Corporate Debtor through e-auction on "as is where is basis", "as is what is basis", "whatever there is basis" and "without recourse basis". Sale will be done by the undersigned through E-Auction service provide National E-Governance Services Ltd (NeSL) (website: https://nbid.nesl.co.in/app/login). The importar particulars of the Sale Process are as under: Date and Time of 5th E-auction Friday, 27<sup>th</sup>October, 2023, 3 PM to 5 PM Monday, 16<sup>th</sup>October, 2023

Last Date and Time for submission of Bid Form, Declaration forms and of KYC documents Date of declaration of Qualified Bidder(s) Up to Wednesday, 18th October, 2023. Date and Time for Inspection or due Upto, Wednesday, 25th October, 2023. diligence of the Corporate Debtor (with one-day prior intimation to Mr. Sudhanshu Pandey Mob. 9821916190) 11:00 am - 3.30 pm. **Except Sundays and State Holidays** Last date and Time for submission of Upto Wednesday, 25th October, 2023 by 3 PM **Declaration Forms and Earnest** 

**Money Deposit Description (Assets)** Reserve Price | EMD (5% of Reserve (Rs. in Crores) Price) (Rs. In Crores) Block 1 Sale of assets of Turning Point Estates Pvt Ltd 4.05 (Corporate Debtor) including all that piece and parcel of land & Building situated at khasra No. 19, 21/1, 22 (area 02 Kanals& 15 Marlas), Khasra No. 22/20 (area 03 Kanals& 03 Marlas), Khasra No. 22/21/1 (area 03 Kanals 15 Marlas), Khasra No. 11/02, 20.12, , 12, 23, 21/1, 18, 19, 22, 21/1, 19, 22 (area 27 Kanals 01 Marlas), Khasra No. 22/18, 22/23, 26/3/2 (area 03 Kanals 09 Marlas having total area of 40 Kanals

bud Maira, NH-21, Near Balongi Sales Tax Barriers, SAS Nagar, Mohali, (Punjab) Bidder/s may refer to detailed terms and conditions and E- Auction Process Memorandum onwebsites https://nbid.nesl.co.in/app/login and can also visit www.ibbi.gov.in for the sale auction notice. They can contact through Email: araventhanse@nesl.co.in, ipsupport@nesl.co.in, sankar@nesl.co.in, neeld@nesl.co.in, or write to the undersigned at turningpoint.bkc@gmail.com, contact numbers: Mr. Araventhan SE +91- 9384676709 Mr. Neel Doshi +91-9404000667, or can contact Mr. Sudhanshu Pandey Mob. No. +91-9821916190.

It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Corporate Debtor to effectuate the sale. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s)/bids or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage or disqualify any interested party potential investor / bidder without any liability. Any revision in the sale notice will be uploaded on the website https://nbid.nesl.co.in/app/login. It is requested to all the bidders to kindly visit the website regularly.

Date:24.09.2023 Liquidator of Turning Point Estates Private Limited (In Liquidation

H

HINDUJA HOUSING FINANCE

Name of Borrowers/

Guarantors

DL/JNK/JNKP/A000000500

Sr.

No.

03 Marlas) together with all construction building

affixed thereon i.e. total land area being 4.6584

acres /18,851.85 sq. mtrsand building

construction areabeing 74,191.04 sqmtrs,

(Commercial property abutting NH-21,

Chandigarh Kharar Road, situated at Village

IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01585/2019-2020/12495(AFA valid till- 21.11.2023 Address: 31-E. BKC Centre, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai, 400 053

## "IMPORTANT"

### NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

400 shares standing in the name of JAYATHIRTHA GARANI (Deceased) joint with MOHAN VITTAL G in Folio No. UB024939 bearing Share Certificate No. 108250 and Distinctive Numbers from 3357331 - 3357730 of UNITED BREWERIES LIMITED having it's Registered Office at "UB TOWER", UB City, #24, Vittal Mallya Road, Bengaluru-560 001, are lost. do hereby give notice that the said share Certificate is lost and I have applied to the company for transfer of shares from IEPF Authority to my demat account.

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the said Share Certificate, The company may advise transfer of shares from IEPF Authority if no objection is received by the company within 15 days of publication of this advertisement, after which no claim will be entertained by the company in that behalf. Place: Bengaluru

Date: 24.09.2023 MOHAN VITTAL G

### Form No. INC-26 **KCM Exports Limited**

CIN: U51398DL2002PLC117936 Regd. Office: C-211, Narwana Apartments, I.P. Extension, New Delhi-110092 Email id: chandpurpaper@gmail.com Before the Central Government Through the office of the Regional Director,

Ministry of Corporate Affairs, New Delhi In the matter of Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 And in the matter of

Northern Region

**KCM Exports Limited** having its Registered Office at C-211 Narwana Apartments, I.P. Extension New

Delhi-110092 **Applicant Company** 

**PUBLIC NOTICE** Notice is hereby given to the General Public

that KCM Exports Limited (the Company) proposes to make an Application to the Central Government through the office of the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, Delhi under section 13 of the Companies Act, 2013, read with Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, and other applicable provisions, if any, seeking confirmation / approval of alteration of Clause II of its Memorandum of Association in terms of the Special Resolution passed in the Extra Ordinary General Meeting held on Saturday, 23<sup>rd</sup> September, 2023, to enable the Company to change its registered office from NCT of Delhi to the State of Uttar

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit, stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director. Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deen Dayal Antodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New delhi-110003 (e-mail ID: rd.north@mca.gov.in), within 14 days from the date of publication of this notice, with a copy to the Applicant Company at its Registered Office address mentioned above. For KCM Exports Limited

Sd/ Amit Kumar Mittal Date: 23.09.2023 Director Place: Delhi DIN: 00713079

Details of Immovable Property

situated at village Bhangel.

9-A. RANA PRATAP MARG. LUCKNOW-226001 Tel No. (0522) 2612849, (0522)2628310, Fax: (0522) 2627994 Email: upsugarfed@yahoo.co.in | Website: www.upsugarfed.org

पत्र संख्या P-10652 यु०पी०एफ०/ Date: 23.09.2023

U.P. COOPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD

## SHORT TERM TENDER NOTICE

Online e-tenders are invited from original manufacturers ( as per details given in tender documents) for lime( Anoopshahr, Buduan, Belrayan, Bilaspur, Bisalpur, Ghosi, Mahmudabad, Puranpur, Sarsawa, Sampurnanagar, Semikhera & Powayan ) to various Cooperative Sugar Factories of U.P.. The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc. can be downloaded from etender portal http://etender.up.nic.in & federation website www.upsugarfed.org The Federation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Federation will be final &

MANAGING DIRECTOR

### ABM INTERNATIONAL LIMITED

Registered Office: 10/60, Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi-110015 Tel: 011- 41426055, Website: www.abmintl.in E-mail: vkgandhi@abmintl.in CIN: L51909DL1983PLC015585

NOTICE TO SHARE HOLDERS TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND

This notice is being issued in terms of the provisions of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as notified by the Ministry of Corporate Affairs. New Delhi and as amended rom time to time ("the Rules"). The Rules, inter alia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend has not been

Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government. n terms of the Rules, individual communications have been sent to those share holders in espect of whom the dividend is unpaid/unclaimed since F.Y2015-16 and thus whose shares

paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years, to the Investor Education and

are liable to be transferred to IEPF under the said Rules. The Company has uploaded the detail of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website www.abmintl.in. view of the above, all such shareholders are requested to make an application to the Company / its Registrar by 29.10.2023 for claiming the unpaid dividend for the year 2015-16

nwards so that the process of transfer of their shares to the IEPF could be stopped. It may lease be noted that if no claim/application is received by the Company or the Registrar, by 29.10.2023 the Company will be compelled to transfer the under lying shares to the IEPF, without any further notice, by following the due process as enumerated in the said Rules.

Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to All shareholders are requested to note the above provisions and claim all unpaid dividends

nmediately. may also be noted that as per present rules the shares transferred to IEPF, including all

enefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the said Rules.

or any clarification on the matter, shareholder may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, BEETAL Financial & Computer Services Pvt Ltd. BEETAL HOUSE, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062, Tel.No. 011-29961281-283 , 26051061, 26051064. e-mail: beetalrta@gmail.com

Place: New Delhi Date: 23.09.2023

By order of the Board Rajneesh Gandhi (Chairman & Managing Director) DIN No. 00244906

Exh No. 20410

## DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) 1st Floor, SCO 33-34-35 Sector-17A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

**PUNJAB NATIONAL BANK** 

Case No.: OA/2471/2017 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993

WINSOME YARNS (2) Defendant No. 2 - Shri S. C. Bagrodia Son of Shri N.P. Bagrodia (Guarantor) Since

Deceased through His Legal Heris: Legal heairs: 1:- Smt. Sudha Bagrodia Wife of Shri S. C. Bagrodia Resident of House No. Sector 9, Chandigarh. IInd Address: - C/o M/s Winsome Yarns Limited. SCO 191-192. Sector 34-A, Chandigarh

Lesal heairs: 2:- Shri Manish Bagrodia Son of Shri S. C. Bagrodia Resident of House No. 351, Sector 9, Chandigarh, IInd Address :- C/o M/s Winsome Yarns Limited, SCO 191-192, Sector 34-A, Chandigarh .egal heairs: 3:- Shri Ashish Bagrodia Son of Sh. S. C. Bagrodia Resident of House No.

351, Sector 9, Chandigarh, IInd Address:- C/O M/s Winsome Yarns Limited, SCO 191-192, Sector 34-A, Chandigarh .egal heairs: 4:- Smt. Suruchi Aggarwal Daughter of Sh. S. C. Bagrodia Resident of

House No. 351, Sector 9, Chandigarh. IInd Address :- C/o M/s Winsome Yarns Limited, SCO 191-192, Sector 34-A, Chandigari SUMMONS WHEREAS, OA/2471/2017 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on

02.09.2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ Notice on the said Application under section 19(4) of the Act. (OA) filed against you for recovery of debts of

Rs. 205992589/- (application along with copies of documents etc. annexed) In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for

should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the original application;

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending

hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets

and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets & properties in the ordinary course of business & deposit such sale

proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 14.11.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 21.09.2023. Signature of the Officer Authorised to issue summons

### **BASANT INDIA LIMITED** CIN: L51909DL1985PLC021396

R.O.: 912, Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110001 Email Id: basant.indiaa@gmail.com, Website: www.basantfinance.com, Tel No. 011 23716531 NOTICE OF THIRTY EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATIONAND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38TH Annual General Meeting of Basant India Limited will be held on Saturday, 30th day of September, 2023 at 03:00 P.M at 912, Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110001 NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act read with

Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules') as amended from time to time, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company for e-voting will be closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday 30th September, 2023 (both days inclusive) for the aforesaid AGM. Electronic Copies of the Annual Report for the financial year 2022-23 along with the Notice convening 38th AGM have been sent to all the members whose e-mail address are

registered with the Company / Depository Participant(s), unless a member has requested for the physical copy of the same. Other than the members whose e-mail address are not registered with the Company / Depository Participant(s), physical copies of the above mentioned documents have been sent in their registered address in the permitted mode. In compliance with section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules as amended from time to time, and regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide it's members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by Central Depository services India Limited (CDSL), on all resolutions proposed to be considered at the aforesaid AGM. Further the facility for Voting through ballot paper / polling paper shall be made available

at the AGM. All members are hereby informed that:

The business as set out in the notice of 38th AGM of the Company may be transacted through voting by electronic means, The remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2023 (9 A.M.

The remote e-evoting period ends on Friday, September 29, 2023 (5 P.M IST),

Cut-Off date: September 23, 2023. Any person, who acquires and/or allotted/ Issued Shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares

as on the cut-off date, may obtain the log-in ID and password by sending a request to the contact person mentioned in point no.(VIII) (vi) The members may note that

Remote e-voting shall not be allowed beyond, September 29,2023 (5 The facility for voting through ballot paper / polling paper shall be made

available at the AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted their vote by remote evoting shall be able to vote at

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM through ballot paper and

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

(vii) The Notice of 38th AGM of the Company along with the Annual Report, attendance slip, Proxy form is available on the Company's website: http://www.basantfinance.com and CDSL's website i.e: www.evotingindia.com; and (viii) In case you have queries / issue regarding e-voting, you may refer the frequently

asked questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. under help section or right an email to help desk e-voting@cdslindia.com or basant.indiaa@gmail.com. The help desk can also be contacted on their tool free no: 1800225533. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronics means, please contact Mr. Rakesh Galvi, Manager CDSL, A wing, 25th Floor, Marathon Fulurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013.

For Basant India Limited (Sushil Aggarwal)

financialexp.epap.in



POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas the under signed being the Authorised Officer of Bank of Baroda under the Securitization and

demand notice, to the following borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice, with interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property

Chandra Srivastava and Ms. Lucknow. Owner: Mrs. Ravinder Kaur Srivastava W/o Rashika Srivastava D/o Mr. Mr. Mahesh Chandra Srivastava. Bounded by: East: Mahesh Chandra Srivastava.

Possession Notice: 20.09.2023 Date: 24.09.2023; Place: Lucknow

OHICE OF THE RECOVERY OFFICER 4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, PATEL CHOWK, NEW DELHI-110001 PROCLAMATION **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI** 

T.R.C. No. 2787/2022 PUNJAB NATIONAL BANK VS SUMANGAL INDUSTRIES AND ORS PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961

READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT. 1993 (CD1) SUMANGAL INDUSTRIES AND ORS. (Proprietor Shyam Sundar Kalra), 86/7, Mundka Village, Road no. 7, Main Rohtak Road. New Delhi-110041. Also at: A-2/26, Second floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027, Also At: Plot No. 120, Khasra No. 7/1, Bakarwala

A-2/26 SECOND FLOOR RAJOURI GARDEN. New Delhi-110027 (CD3) SMT. ASHA KALRA W/O SHRI SHYAM SUNDER KALRA, A-2/26 SECOND FLOOR RAJOURI GARDEN, New Delhi-110027

(CD 5) KARNATKA BANK LTD., PASCHIM VIHAR BRANCH, New Delhi-110027

(CD 2) SHRI SHYAM SUNDER KALRA S/O SHRI RAMJI DAS KALRA

(CD 5) KARNATKA BANK LTD., PASCHIM VIHAR BRANCH, New Delhi-110027 Whereas Transfer Recovery Certificate No. 2787/2022 in OA no 779/2016 dated 27.10.2016 drawn by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I for the recovery of a sum of Rs. 4,01,37,143.57/- together with costs and future interest @ 12% p.a. simple, from the date of filling of OA i.e. 27.10.2016 till its realization and also to pay cost of Rs 1,50,000/- from the Certificate debtors together with

(CD 4) SHRI GOVINDA KALRA S/O SHRI SHYAM SUNDER KALRA, A-2/26 SECOND FLOOR RAJOURI GARDEN, New Delhi-110027

And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said certificate. And whereas there will be due there under a sum of Rs. 4,01,37,143.57/- together with costs and future interest @ 12% p.a. simple, from the date of filling of OA i.e. 27.10.2016 till its realization and also to pay cost of Rs 1,50,000/- notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the property/properties as under shall be sold by e-auction and bidding shall take place through "On line Electronic Bidding" through the website https://drt.auctiontiger.net on 26.10.2023 between 12.00 pm and 01.00 pm with extensions of 5 minutes duration after 01.00 pm, if required. The description of the property proposed to be e-auctioned is as follows:

Description of property EMD Reserve Price Property bearing No. A-2/26, Second Floor (with Roof/Terrace Rights) Rs. 2.5 Crores/-Rs. 25 Lakh/-Rajouri Garden, New Delhi-27 5. The EMD shall be paid through Demand Draft/pay Order in favour of Recovery Officer, DRT-I, Delhi-A/c T.R.C. No. 2787/2022 alongwith self-attested copy of Identity (Voter 1- card/Driving/license/passport) which should contain the address for future

before 5.00 PM. The EMD received thereafter shall not be considered. The said deposit be adjusted in the case of successful bidders, The unsuccessful bidder shall take return of the EMD directly from the Registry, DRT-I, Delhi after receipt of such report from e-auction service provide/bank/financial institution on closure of the e-auction sale proceedings. The envelope containing EMD should be super-scribed "T.R.C. No. 2787/2022" along with the details of the sender i.e. address, e-mail

communication and self-attested copy of PAN card must reach to the Office of the Recovery Officer, DRT-I, Delhi latest by 24.10.2023

ID and Mobile Number etc. Intending bidders shall hold a valid Login Id and Password to participate in the E-Auction email address and PAN Number. For details with regard to Login Id & Password, please contact M/s e-Procurement Technologies Ltd., (Auctiontiger) Ahmedabad, Contact no -079-40230812/11/10/09/08/07/06. Mobile 09002715034, Email: wb@auctiontiger.net; support@auctiontiger.net.

Prospectives bidders are required to required to register themselves with the portal and obtain user ID/Password well in advance, which is mandatory for bidding in above e-auction. From M/s e-Procurement Technologies Ltd., (Auctiontiger). Details of concerned bank officers/helpline numbers etc. are as under:-Name & Designation Email & Phone Nos.

Email: cs8292@pnb.co.in

2nd Floor, Vikrant Tower, Rajendra Place, New Delhi 110008 Mobile No. 9310865921 0. What is proposed to be sold are the rights to which the certificate debtors are entitled in respect of the properties. The properties will be sold along with liabilities, if any. The extent of the properties shown in the proclamation is as per the Recovery Certificate schedule. Recovery Officer shall not be responsible for any variation in the extent due to any reason. The properties will be sold on 'as is where is'

Vivek Kumar, Chief Manager, Circle Sastra, North Delhi,

and 'as is what is' condition. 1. The property can be inspected by prospective bidder(s) before the date of sale for which the above named officer of the bank may be 2. The undersigned reserves the right to accept to or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time

without assigning any reason. EMD of unsuccessful bidders will be received by such bidders from the Registry of DRT-I, on the identification/production of Identity proof viz., PAN Card, Passport, Voter's ID, valid Driving License or Photo identity Card issued by Govt. and PSUs. Unsuccessful bidders shall ensure return of their EMD and, if not received within a reasonable time, immediately contact the Recovery Officer, DRT-

property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot. 5. The Property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The Sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer

4. The Sale will be of the property of the above CDs as mentioned in the schedule below the liabilities and claims attaching to the said

conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the 6. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

7. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions: The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this

8. The amount by which the biddings are to be increased shall be in multiple of Rs. 1,00,000 (Rs. One lac only). In the event of any

19. The Successful/Highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that further that the amount bid by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 20.Successful/ highest bidder shall have to prepare DD/Pay order for 25% of the sale proceeds favouring Recovery Officer, DRT-I, Delhi,

dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.

A/c T.R.C. No. 2787/2022 within 24 hours after close of e-auction and after adjusting the earnest money (EMD) and sending/depositing the same in the office of the Recovery Officer so as to reach within 3 days from the close of e-auction failing which the earnest money (EMD) shall be forfeited. 1. The Successful/Highest Bidder shall deposit, through Demand Draft/Pay Order favouring Recovery Officer, DRT-I, Delhi A/C. T.R.C 2787/2022, the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer, DRT-I on or before 15t, day from the date of sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day alongwith the

poundage fee @ 2% uptoRs 1,000 and @ 1% on the excess of such gross amount over Rs 1000/- in favour of Registrar, DRT-I Delhi. (In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should reach the Recovery Officer as above.) 22. In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraving the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the

defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold. Revenue Assessed Details of any Claims, if any, which have been Description of the property to be sold with the names of the co-owners where the property belongs to the defaulter and any upon the Property Encumbrance to put forward to the Property, and No. which property any other known particulars or any part thereof other person as co-owners. is liable bearing on its nature and value. Property bearing No. A-2/26, Second Floor (with Roof/ Terrace No information received



Vynilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

First Floor, Mahalaxmi Metro Tower, Above Axis Bank, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010 SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED under Securitization and

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Amount

Outstanding

29.12.2022

Ms. Namrata Amol Rander

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon the borrower (hereinafter the borrower and guarantors are collectively referred to as the "the Borrowers") to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section 4 of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the dates mentioned against each account. The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

property will be subject to the charge of the HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED for an amount and future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, costs, charges, etc. thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Demand Notice Date

Date of Possession

1	Application No. DL/JNK/JNKP/A000000078 DL/JNK/JNKP/A000000460 Mr. Lekhraj Singh, H. No- 1208, Ward No. XII, Sora Kothi, Subzi Mandi, Delhi-110007. Mr. Sharda, H. No- 1201, Ward No. XII, Sora Kothi, Subzi Mandi, Delhi-110007.	25.04.2022 18.09.2023 SYMBOLIC	₹ 12,99,815/- as on 01.04.2022 plus interest thereon	Property Bearing No. 1201, Second Floor (Front Side Portion), Ward No. XII, Shora Kothi, Opp. Rawalpindi Jewellers, Subzi Mandi, Delhi - 110007, Bounded as: East - Other's Property, West - Other's Property, North - Back Side Remaining Portition, South - Gali
2	Application No. DL/JNK/JNKP/A000000129 DL/JNK/JNKP/A000000435  Mr. Parveen Kumar & Mrs. Reena Devi, both at: B-66, Master Colony, Garima Garden, Near Noor Hasan Public School, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005	18.10.2022 18.09.2023 SYMBOLIC	₹ 17,47,339/- as on 03.10.2022 plus interest thereon	Freehold Residential Plot No. 63, area measuring 50 sq. yds. i.e 41.80 sq. mtrs., Out of Khasra No. 200 min, Situated at Master Enclave, Village Pasonda, Pargana Loni Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh., Bounded as: East - 15 Ft. Wide Rasta, West - Other's Property, North - Plot No. 62, South - Plot No. 64
3	Application No. DL/JNK/JNKP/A00000379	31.12.2022	₹ 30,36,352/- as on	Freehold Residence House land area 50 sq. yrds. Out of khasra no. 89,

22.09.2023

	Mr. Vikas Kumar, Mr. Ranveer Singh & Mr. Subhlesh, All at: H.No. 204, Gaon Nithari, Sector – 31 Noida, Near By Blood Bank, Metro, Uttar Pradesh, India - 201301.	SYMBOLIC	plus interest thereon	Begumpur, Rajeev Colony, Pargana & Tehsil Dadri, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh., Bounded as: East - Plot, West - Mr. Jitender, North - 12 Ft. Wide Road, South - House of Maha Singh
4	Application No. DL/JNK/JNKP/A000000043 DL/JNK/JNKP/A0000000723 Mr. Yashpal Sharma, Mr. Akash Sharma & Ms. Jyoti Sharma, All at: WZ-400, Ram Chowk Sadh Nagar, Street No. 4, Palam Colony, South West Delhi, New Delhi, Metro, India - 110045	16.03.2023 19.09.2023 SYMBOLIC	₹ 22,80,389/- as on 09.03.2023 plus interest thereon	Property Munsipal House No. WZ – 400, Comprising Plot No. E-76/A, area 141 sq. yds. E-76B, Plot area 141 sq. yds. Total area 282 sq. yds. In the revenue area of village Palam, Delhi State, Delhi., Bounded as: East - House of Others, West - House of Others, North - Passiage of 10 Ft wide, South - Road 10 Ft. wide
5	Application No. DL/GRN/APLH/A000000109 Mr. Gaurav Tyagi & Ms. Sapna Tyagi, both at: H. No. 513, Madanpur Khadar, Bhangar Chowk, Sarita Vihar, New Delhi, India - 110076	22.02.2023 22.09.2023 SYMBOLIC	₹ 42,77,332/- as on 22.02.2023 plus interest thereon	Dwelling flat no. 506, Super covered area measuring 1450 sq. ft. approx. 5th Floor, Tower – B2, Jaipuria Apartment, Plot No. 14, Sector – 1(Gh-06), Crossing Republic, Village Dundahera, NH 24, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201009.
6	Application No. DL/GRN/APLH/A000000055  Mr. Shartrughan Singh & Ms. Jyotsana Singh, both at: 134B/2K/1, Brigu Marg, Balram General Store, Chota Baghada, Allahabad, Rural, Uttar Pradesh, India - 211002	30.11.2022 22.09.2023 SYMBOLIC	₹ 42,84,922/- as on 22.11.2022 plus interest thereon	Flat no. 1002, area measuring 1450 sq. ft., 10th Floor, Tower – B2, Jaipuria Apartment, Plot No. 6, Crossing Republic, Village Dundahera, NH 24, Ghaziabad, Uttar Pradesh -201009.
7	Application No. DL/GRN/APLH/A000000085	30.11.2022 22.09.2023	₹ 26,82,332/- as on	Dwelling Flat no. 1505, Super covered area measuring 900 sq. ft., 15th Floor,

Mr. Manoj Kumar Sharma & Ms. Neetu 22.09.2023 Tower - B2, Jaipuria Apartment, Plot 22.11.2022 SYMBOLIC Sharma, both at: Flat no. D-4, 4th Floor, Plot No. No. 14, Crossing Republic, Sector - 1 plus interest (GH-06) Village Dundahera, NH 24, 12, Old Palam Raod, Chandra Park, Dwraka thereon More, Kakrola, N.S.I.T. Metro, Delhi - 110078 Ghaziabad, Uttar Pradesh -201009 Application No. ₹ 31,58,243/-Residental Property Flat no. 102, 1st 03.09.2022

22.09.2023

SYMBOLIC

Residency Colony, NRI Apartment, Sector - 106, Noida Khasra No. 73, Village Bhangel, Bagumpur, Gautam Nagar, Urban, Noida, Uttar Pradesh, India - 201204

Dated: 23-09-2023, Place: Ghaziabad

HR/NCH/GURH/A000000440

HR/NCH/GURH/A000000729

Mr. Wasim Akram & Ms. Hoosnara Khatoon.

both at: Flot no. 102, 1st Floor, LHS Side Flat,

(Anukool Yaday)

Recovery Officer-II, DRT-I, Delhi

as on

18.08.2022

plus interest

thereon

Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Floor, Having super area 1100 sq. ft.

102.19 sq. mtrs. Without roof right,

Khasra no. 73, in village Bhangel,

Bagumpur, Pargana & Tehsil Dadrai,

District Gautam Nagar, Uttar Pradesh

Place: New Delhi New Delhi

Date: 23rd September, 2023.



Managing Director

Rights). Rajouri Garden, New Delhi-27.

Given under my hand and seal on 6th September 2023.

financialexpress.com

Borrower: Mrs. Ravinder Kaur EM of Flat no. 204 on 2nd floor. Coronation Bijwa Estate Srivastava W/o Mr. Mahesh situated at 28 Park Road, Ward- Vikramaditya, 95,73,034.16

Flat No. 205; West: Side set back and thereafter Haider Chandra Srivastava R/o Flat no. 205, Coronation Bijwa Estate

Guarantor: Mr. Mahesh Chandra Canal; North: Side set back and thereafter property of Srivastava S/o Mr. Kailash Vendors: South: Flat no. 203 and Common Corridor.

+ interest &

other

expenses

SALE

Dated: 22.09.2023

## पंजी. कार्यालयः 708, मंजूशा बिल्डिंग, 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत इन्टेक कैपिटल लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 12.06.2023 जो स्पीड पोस्ट द्वारा 13.06.2023 को भेजी गई, के द्वारा ऋणधारक 1) मै. एलायड इंजीनियरिंग सॉल्यशन्स (ऋणधारक) द्वारा प्रॉप्राईटर श्री राजीव जैन. 2. संजीव जैन (गारंटर/प्रॉप्राईटर/मार्टगैजर), 3. शन्नो जैन (गारंटर), 4. बिहारी लाल जैन (गारंटर) . एलायड इंडस्ट्रीज (गारंटर) द्वारा उसके प्रॉप्राईटर सुश्री शन्नो जैन को उक्त ऋण अनुबंध सं. LNN0100613-140003199 तिथि 31.12.2013 के संदर्भ में उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि रु.101869182/- (रु. दस करोड अठारह लाख उनहत्तर हजार एक सौ बयासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज, 22 सितम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि व यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसार रु.101869182/- (रु. दस करोड़ अठारह लाख उनहत्तर हजार एक सौ बयासी मात्र) तथ सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर ब्याज एवं खर्चे के लिये इन्टेक कैपिटल लि. के चार्ज के अधीन होगा ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

## अचल सम्पत्ति का विवरण

जलालाबाद, ग्राम दुहई इंडस्ट्रियल एरिया, एचएलएम कॉलेज के पीछे, पसोण्डिया स्टील के निकट, मेरठ रोड,तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित आवासीय/कॉमर्सियल सम्पत्ति/भृमि/भवन/सुपरस्ट्रक्चर/फिक्चर्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

> उत्तर: विक्रेता की भिम. पश्चिम: 25 फीट चौडा रोड पूर्वः अन्य सम्पत्ति प्राधिकृत अधिकारी

तिथि: 22.09.2023 इन्टेक कैपिटल लिमिटेड के लिये स्थानः गाजियाबाद

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त मनीष सिंह उर्फ भूरा, पुत्र स्वर्गीय मनहोर सिंह चौहान निवासी ग्राम ऐचापुर थाना बिशनगढ़ जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश ने प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 638/2015 भा,द.सं, की धारा 302 के तहत, थाना महेन्द्र पार्क, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त मनीष सिंह उर्फ भूरा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त मनीष सिंह उर्फ भूरा फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 638/2015 भा.द.सं. की धारा 302 के तहत, थाना महेन्द्र पार्क, दिल्ली के उक्त अभियुक्त मनीष सिंह उर्फ भूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 31.10.2023 को या उससे पूर्व हाजिर हो। आदेशानुसार सशील कुमार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-04 ( उत्तर ), कमरा नं.206 दि.प्./10379/उत्तर पश्चिम/2023 दसरी मंजिल, जिला कोर्ट, रोहिणी, दिल्ली

## एबीएम इण्टरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 10/60, इण्डस्टियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 दुरभाष : 011-41426055, वेबसाइट : www.abmintl.in, ई-मेल : vkgandhi@abmintl.in, सीआईएन : L51909DL1983PLC015585 शेयर धारकों के लिए सुचना

निवेशक शिक्षा तथा सरंक्षण विधि में इक्विटी शेयरों का अंतरण इ सचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा यथा अधिसुचित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित वेशक शिक्षा तथा सरंक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 के साथ

ठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जारी की जा रही है। ायमावली में अन्य बातों के अलावे ऐसे सभी शेयरों के केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा रंक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिए लगातार सात वर्षों से शेयरधारकों को ाभंश का भगतान अथवा उसका दावा नहीं किया गया है।

ियमावली के अनुार उन शेयराधारकों को वैयक्तिक सूचनाएं भेज दी गई हैं जिनके संदर्भ में लाभांश एफवाई **2**015-16 से अप्रदत्त/दावा-रहित रहा है और इस<sup>ें</sup>प्रकार उक्त नियमों के अंतर्गत जिनकी शेयरों को गुईईपीएफ में अंतरित किया जाना है। ऐसे शेयरधारकों तथा आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत शेयरों के ि वरणों को कम्पनी ने अपनी वेबसाइट www.abmintl.in अपलोड कर दिया है।

परोक्त के आलोक में ऐसे सभी शेयरधारकों स अनुरोध है वर्ष 2015–16 से आगे के लिए अप्रदत्त लाभांश <mark>का दावा करने के लिए 29.10.2023 तक कम्प</mark>नी/उसके रजिस्ट्रार के पास आवेदन करें तथा ताकि नाईईपीएफ में उनकी शेयरों के अंतरण की प्रक्रिया को रोका जा सके। कृपया ध्यान रहे कि यदि 29.10.2023 क कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार को कोई दावा/आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी के लिए आगे कोई भी चना दिए बिना उक्त नियमावली में वर्णित प्रक्रिया का अनसरण कर अन्तर्निहित शेयरों को आईईपीएफ मे र्गतरित करने के लिए बाध्य होगा।

प्या ध्यान रहे कि ऐसी शेयरों पर उत्पन्न भविष्य के सभी लाभ लाभांश में आईईपीएफ में अंतरित किए

भी शेयरधारकों से आग्रह है कि उक्त प्रावधानों का ध्यान रखें तथा सभी अप्रदत्त लाभांशों का तत्काल दावा

ह भी ध्यान रहे कि वर्तमान नियमों के अनासर ऐसी शेयरों पर अपचयित सभी लाभों यदि कोई हो, सहित गाईईपीएफ में अंतरित शेयरों का उक्त नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनसरण करने के बाद गईईपीएफ से उसे वापस प्राप्त करने का भी दावा किया जा सकता है।

स विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारक कम्पनी रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट बीटल गइनांसियल एंड कम्प्यटर सर्विसेस प्रा.लि., बीटल हाउस, 3रा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई **इ**ल्ली-110062, टेली नं. 011-29961281-283, 26051061, 26051064, ईमेल

l eetalrta@gmail.com से सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड की आजानसार स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 23.09.2023

रजनीश गांधी (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) डीआईएन नं. 00244906

## बसंत इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः L51909DL1985PLC021396 क्षे.कार्याः ९१२, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग, २१ बाराखंभा रोड, नई दिल्ली ११०००१ ईमेल आईडी: basant.indiaa@gmail.com, वेबसाइट: www.basantfinance.com, फोन नं 011 23716531 अडतींसवीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग

जानकारी और पुस्तक बंद की सूचना एतदद्वारा सचना दी जाती है कि बसंत इंडिया लिमिटेड की 38वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 30

सितंबर, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे, 912, इंद्र प्रकाश भवन, 21 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 11000<sup>,</sup> में आयोजित की जाएगी।

एतदद्वारा यह भी सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित यथा समय—समर पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 10 के अनुसार, सदस्यों क

रजिस्टर और ई—वोटिंग के लिए कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सहित) तक उपरोक्त एजीएम के लिए बंद रहेगी। 38वीं एजीएम आयोजित करने की सुचना के साथ वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की

इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनका ई–मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागियों के पास पंजीकृत है, बशर्ते किसी सदस्य ने इसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध न किय हो। जिन सदस्यों का ई–मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागियों के पास पंजीकृत नहीं है, उनके अलावा अन्य सदस्यों को उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां उनके पंजीकृत पते पर अनमत तरीके से भेजी गई हैं।

सुचीकरण विनियमों के विनियम 44 तथा यथा समय—समय पर संशोधित नियमों के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को उक्त एजीएम में विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली ई–मतदान सेवाओं के माध्यम से उन्हें मतदान डालने की

इसके अलावा बैलेट पेपरध्मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई

एतदद्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

(i) कंपनी के 38वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यवाही का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान

के माध्यम से किया जा सकता है. (ii) रिमोट ई—वोटिंग की अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को ( पूर्वाह्न 9:00)से शुरू होगी।

(iii) रिमोट ई—वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को (शाम 5 बजे) समाप्त हो होगी । (iv) कट—ऑफ तिथि : 23 सितंबर, 2023

 $| \hspace{-.4em} |_{(v)}$  कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और  $\nearrow$ या आवंटित $\nearrow$  जारी करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है एवं कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर

रखता है, वह बिंदु संख्या (VIII) में उल्लिखित संपर्क व्यक्ति को अनुरोध भेजकर लॉग-इन आईडी vi) सदस्य यह भी ध्यान दें कि:

क) रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति 29 सितंबर, 2023 को (शाम 5 बजे भा.मा.स.) के बाद नहीं दी जाएगी ख) मतदान पत्र / पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा कंपनी की एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ईवोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे।

ग) कोई सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उन्हें एजीएम में मतदान पत्र के माध्यम से फिर से मतदान

करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और घ) जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वार

बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह ही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग


की सुविधा के साथ-साथ वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। ii) कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म के साथ कंपनी की 38वीं एजीएम की सूचन कंपनी की वेबसाइटः https://www.basantfinance.com और सीडीएसएल की वेबसाइट यानी

(viii) यदि आपके पास ई—वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न / समस्या है. तो आप www-evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("एफएक्यू) और ई–वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं या हेल्प डेस्क पर e-voting@cdslindia.com या basant.indiaa@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। उनके टोल फ्री नंबर: 1800225533 पर भी हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया श्री राकेश गलवी, प्रबंधक सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फुलुरेक्स

मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 से संपर्क करें।

कते बसंत इंडिया लिमिटेड दिनांकः 23 सितंबर, 2023

(सुशील अग्रवाल) प्रबंध निदेशक



ऋण खाता सं. :- USFBDELLOAN000005008053

1) श्री बलवन्त सिंह (कर्जदार एवं बंधकदाता)

2) श्रीमती धनवंती देवी (सह-कर्जदार)

3) श्री राकेश बी (सह-कर्जदार)

स्वीकृति तिथि : 28-02-2023

**ऋण राशि**: रू 21 63 000 / -

4) श्री जसवंत बी

तिथि: 24-09-2023

आस्तियां प्रवर्तित करने हेत विवश होगा। कपया नोट करें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप बिक्री पटटा अथवा अन्य प्रकार से किसी भी प्रतिभूत आस्ति के संबंध में संव्यवहार अथवा उसका अंतरण नहीं कर सकते हैं। इस प्रावधान का उल्लंघन एक अपराध है तथा अधिनियम के तहत दंडनीय है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा कर्जदार, यदि वे ऐसा चाहें, उसको अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त कर सकता है / सकते हैं। स्थान : महेन्द्रगढ़, हरियाणा प्राधिकृत अधिकारी,

वसूली अधिकारी का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।, दिल्ली

केन्द्रीय विद्यालय

सेक्टर-2, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली - 110022

नीलामी स्चना - Auction Notice (for E-Waste Items)

जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय सै. 2 आर.के पुरम नई दिल्ली–22

में दिनांक 05.10.2023 (वीरवार) को प्रात: 11.45 बजे विद्यालय के विभिन्न विभागों के

व्यर्थ / टूटे फूटे /क्षतिग्रस्त / असुधारणीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य सामाग्री, जहां जैसा है कि

रिथिति में उपलब्ध है को नीलाम किया जाना है। इच्छक फर्म / व्यक्ति अथवा समूहों को अवगत

कराया जाता है कि दिनांक 04.10.2023 (बुधवार) को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12 बजे के

बीच विद्यालय में आकर उपलब्ध सामाग्रियों का निरीक्षण कर सकते है । नीलामी में भाग लेने

से पर्व 1000 /— रूपये की राशि एवं E-waste के सरक्षित निपटान और पनरुपयोग में लाने

का सरकारी सक्षम अधिकारी / संस्था द्वारा प्रदत्त मान्य प्रमाणपत्र तथा व्यवसाय का पंजीकरण

प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक है ।

∆ayas

ऋणी का नाम

खाता सं. LNMTR02921-220207738

के माध्यम से सचित किया जा रहा है।

मोहन, श्रीमती आशा

स्थान : जयप्र

चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001 टी.आर.सी. सं.: 2787 / 2022 पंजाब नैशनल बैंक विरुद्ध सुमंगल इंडस्ट्रीज एवं अन्य

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय-भुग्तेय ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत विक्रय की उद्घोषणा (सीडी 1) सुमंगल इंडस्ट्रीज एवं अन्य (स्वामी श्याम सुंदर कालरा), 86 / 7, मुंडका गांव, रोड नं. 7, मुख्य रोहतक मार्ग, नई दिल्ली—110041,

अन्य पता : ए-2/26, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027, अन्य पता : प्लॉट नं. 120, खसरा नं. 7/1, बकरवाला मार्ग, मुंडका, नर्ड दिल्ली-110041

(सीडी 2) श्री श्याम सुंदर कालरा पुत्र श्री रामजी दास कालरा ए-2/26, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 (सीडी 3) श्रीमती आशा कालरा पत्नी श्री श्याम सुंदर कालरा, ए-2/26, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

**(सीडी 4) श्री गोविंदा कालरा पुत्र श्री श्याम सुंदर कालरा,** ए−2 ∕ 26, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली−110027

(सीडी 5) कर्नाटक बैंक लिमिटेड, पश्चिम विहार शाखा, नई दिल्ली-110027 (सीडी 5) कर्नाटक बैंक लिमिटेड, पश्चिम विहार शाखा, नई दिल्ली-110027

1. जबकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण—। द्वारा ओए संख्या 779/2016 दिनांकित 27—10—2016 में अंतरण वसूली प्रमाणपत्र संख्या

2787 / 2022 का, रु. 4,01,37,143.57/- की एक राशि और ओए की फाइलिंगकी तिथि अर्थात् 27-10-2016 से लेकर के इसके वसूलीकरण तक से 12 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर पर नियत लागतों एवं भावी ब्याज की वसूली करने तथा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों एवं शुल्कों के साथ प्रमाणपत्र देनदारों से रु. 1,50,000/- की लागत का भी भूगतान करने के लिये, आहरण किया गया।

2. और जबिक अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त प्रमाणपत्र से संतूष्ट होकर के निम्नानुसूची में वर्णित संपत्ति के विक्रय का आदेश दे दिया है। 3. और जबिक यहाँ, वहां उसके अंतर्गत ओए की फाइलिंग की तिथि अर्थात् 27—10—2016 से लेकर के इसके वसूलीकरण तक से 12 प्रतिशत वार्षिक

की साधारण दर लागतों एवं भावी ब्याज के साथ रु. 4,01,37,143.57/- की एक राशि तथा रु. 1,50,000/- की लागत भी भुगतान हेतु देय होगी। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि स्थगन के किसी भी आदेश के अभाव में, नीचे दी गई संपत्ति / संपत्तियों को ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और बोलीदान जो है वह वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से 26-10-2023 को दोपहर 12.00 बजे से अपराहन 01.00 बजे के बीच, अपराहन 01.00 बजे के उपरांत 5 मिनट की अवधि के विस्तारों के साथ, आवश्यक होने पर, ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान'' के माध्यम से संपन्न

4. ई-नीलाम किये जाने हेत प्रस्तावित संपत्ति के विवरण निम्नानसार प्रस्तत हैं

7. 2	The state of the s	0.0	15
क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धराज
1.	संपत्ति सं. ए–2/26, द्वितीय तल (छत/टेरेस अधिकारों के साथ), राजौरी गार्डन, नई दिल्ली – 27	रु. 2.5 करोड़	रु. 25 लाख
5. ईएम	मडी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से रिकवरी ऑफिसर, डीआरटी–1, दिर्ल्ल	ो—खाता टी.आर.सी. नंबर 2 <sup>.</sup>	787 / 2022 के पक्ष में पहचान—पत्र
(=1)	ना अर्चकार्च (बाविंग जानमंत्र) स्त्री प्रकारिक एवं के गांध किया जागा।	ियामें अविष्य के संज्ञान	के दिल गवा और की कार्व की

(वोटर आईकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित प्रति के साथ किया जाएगा, जिसमें भविष्य के संचार के लिए पता और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति होनी चाहिए जो वसली अधिकारी, डीआरटी-। दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम 24-10-2023 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले अवश्य पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं की स्थिति में उक्त जमा राशि को समायोजित कर लिया जाएगा। असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री कार्यवाहियों के बंद होने पर ई–नीलामी सेवा प्रदाता / बैंक / वित्तीय संस्थान से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीधे रजिस्ट्री, डीआरटी–।, दिल्ली से ईएमडी वापस प्राप्त कर सकेगा। 6. ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक के विवरणों अर्थात पता, ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर इत्यादि के साथ ''टी.आर.सी. नं. 2787 / 2022'' शीर्ष पर लिखा होना

7. इच्छुक बोलीदाताओं के पास ई–नीलामी में भाग लेने के लिए एक वैध लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ईमेल पता और पैन नंबर होना चाहिए। लॉगिन आईडी और

पासवर्ड के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कपया मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (आक्शन टाइगर) अहमदाबाद से संपर्क करें, संपर्क नंबर -079-40230812 / 11 / 10 / 09 / 08 / 07 / 06, मोबाइल 09002715034, ईमेल : wb@auctiontiger.net; support@auctiontiger.net 8. संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल के साथ खुद को पंजीकृत करने और मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (आक्शन टाइगर) से उपयोगकर्ता

आईडी / पासवर्ड अच्छी तरह से अग्रिम रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो कि उपरोक्त ई–नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है। 9. संबंधित बैंक अधिकारियों के विवरण / हेल्पलाइन नंबर इत्यादि निम्नानुसार हैं

ईमेल एवं दूरभाष नंबर्स विवेक कुमार, मुख्य प्रबंधक, सर्कल सस्त्र, उत्तरी दिल्ली, द्वितीय तल, विक्रांत टावर, राजेंद्र ईमेल : cs8292@pnb.co.in प्लेस, नई दिल्ली 110008 मोबाइल नंबर 9310865921

10. जो बेचने का प्रस्ताव है वे अधिकार हैं जिनके लिए प्रमाणपत्र देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा, वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। संपत्तियों की बिक्री ''जैसी हैं जहां हैं'' और ''जैसी हैं जो हैं'' शर्त पर की जाएगी। 11. इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा विक्रय की तिथि से पूर्व संपत्ति का अवलोकन किया जा सकता है, जिस हेतू उपरोक्त नामित बैंक के अधिकारी से संपर्क

12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास किसी भी या सभी बोलियों को अनुचित पाए जाने पर स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार सरक्षित है।

13. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी, पहचान साक्ष्य जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार और पीएसयू द्वारा जारी फोटो पहचान–पत्र की पहचान ∕ प्रस्तुति पर डीआरटी–। की रजिस्ट्री से प्राप्त की जाएगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि ईएमडी उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं तो तुरंत वसूली अधिकारी, डीआरटी–।, दिल्ली / या बैंक से संपर्क करें। 14. बिक्री, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है, उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावे,

जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे हैं जो प्रत्येक लॉट के समक्ष अनसची में विनिर्दिष्ट हैं। 15. संपत्ति को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट्स के अंतर्गत बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि, संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से प्राप्त हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। बिक्री को तब भी रोक दिया जायेगा, यदि किसी भी लॉट को रखने से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तूत कर दी जाती है या उनकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण दे दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और लागतों का अधोहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान कर दिया गया है। 16. कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो बिक्री के संबंध में हालांकि कोई कर्तव्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निभा रहा है, वह बोलीदान नहीं कर सकता,

बेची गई संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयास नहीं कर सकता। 17. बिक्री जो होगी वह आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली में निर्धारित शर्तों और आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : संलग्नित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं,

तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में हुई / होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 18. जिस राशि से बोलीदान बढ़ाया जाना है, वह रु. 1,00,000 / – (केवल एक लाख रुपये) के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोलीदाता के संबंध

में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, लॉट को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। 19. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता तब घोषित किया जाएगा बशर्ते कि उसके द्वारा बोलीदान की गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो / कम नहीं है। यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेक पर होगा कि वह उस स्थिति में उच्चतम बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर

दें. जब प्रस्तावित कीमत स्पष्ट रूप से इतनी अपर्याप्त हो कि बोलीदान करना ही अनचित प्रतीत होता हो। 20. सफल / उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के उपरांत 24 घंटों के भीतर और बयाना राशि (ईएमडी) को समायोजित करने के उपरांत वसुली अधिकारी, डीआरटी–1, दिल्ली, खाता टी.आर.सी. नं. 2787/2022 के पक्ष में बिक्री आय की 25 प्रतिशत राशि का डीडी/पे ऑर्डर तैयार

करना होगा और इसे वसूली अधिकारी के कार्यालय में इस प्रकार भेजना / जमा करना होगा ताकि यह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर वहां पहुंच जाए। ऐसा न करने पर बयाना राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी। 21. सफल / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री आय का शेष 75 प्रतिशत, संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन या उससे पहले, ऐसे दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर, वसूली अधिकारी, डीआरटी–। के पास वसूली अधिकारी, डीआरटी—1, दिल्ली, खाता टी.आर.सी. 2787/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से रजिस्ट्रार, डीआरटी—। दिल्ली के पक्ष में रु. 1,000 / – तक की राशि पर 2 प्रतिशत की दर से और रु. 1,000 / – से अधिक की ऐसी कुल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से जुर्माना

शुल्क जमा करना होगा। (डाक के माध्यम से शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने की स्थिति में वह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंचनी 22. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चुक की स्थिति में, बिक्री की नई उदघोषणा जारी होने के बाद संपत्ति का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा। बिक्री के खर्च को चुकाने के बाद जमा राशि, यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता को ठीक लगता है, सरकार के पास जब्त की जा सकती है और चुककर्ता खरीदार के संपत्ति से संबंधित या इसे बेचकर अर्जित होनेवाली राशि के किसी हिस्से से संबंधित समस्त दावे जब्त हो जाएंगे।

ल। ट सं.	बेचा जाना है, जहां संपत्ति चूककर्ता तथा सह—स्वामियों के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है	किसी भाग पर मूल्यांकित राजस्व	विवरण, जो कि संपत्ति पर हैं	दाव, याद काइ, ाजन्ह सपारत हेतु अग्रसारित किया गया है, तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य का कोई अन्य ज्ञात विवरण
1.	संपत्ति सं. ए—2/26, द्वितीय तल (छत/टेरेस अधिकारों के साथ), राजौरी गार्डन, नई दिल्ली — 27		कोई जानकारी प्र	गप्त नहीं हुई

आज 6 सितंबर 2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा के अंतर्गत निर्गत

(अनुकूल यादव) वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।, दिल्ली

# JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No: JDA/EE&TA to Dir.Engg.-I/2023-24/D-105

NOTICE INVITING BID

NIB No. : EE & TA to Dir.Engg.-1/25/2023-24

Bids are invited for works given below in various zones as per details given :-

S. No.	Zone	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	Nature of Work	Last Date
1.	EE-1	JDA2324WSOB00586	210.00	Road	07.10.2023
2.	EE-1	JDA2324WSOB00587	674.00	Road	27.09.2023
3.	EE-1	JDA2324WSOB00622	210.00	Road	02.10.2023
4.	EE-8	JDA2324WSOB00593	487.90	Road	30.09.2023

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in. Executive Engineer & TA to Dir.Engg-I Raj.Samwad/C/23/9979

M MONDER

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिकारी ट्रांजिट आवास हेत् लीज पर आवासीय संपत्ति चाहिए

भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) कम्पनी अधिकारियों के ट्राजिट आवास हेतु दिल्ली में आवासीय सम्पत्ति लीज पर लेना चाहता है

आवासीय सम्पत्ति स्वतंत्र निवास / फ्लैट / बिल्डर

फ्लोर्स होना चाहिए जिसमें अटैच्ड टॉइलेट सहित

न्युनतम 5 बैंडरूम, ड्राइंग/डाइनिंग एवं किचन होना चाहिए, तथा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, दिल्ली से 10 किमी की दुरी के भीतर होना चाहिए । इच्छुक

सम्पत्ति स्वामियौँ से प्रस्ताव आंमत्रित हैं । सभी

प्रस्ताव मुख्य (समन्वय), नुमालीगढ़ रिफाइनरी

लिमिटेड, 6वीं मीजल, टॉलस्टॉय हाउस, 15-17 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 के नाम से

उनके पास 30.09.2023 तक पहुंच जाने चाहिए।

कब्जे की तारीख

एवं प्रकार

सांकेतिक

कब्जा दिनांक

21 सितम्बर

2023

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

( पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात ) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियसँ लिमिटेड ( पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात )** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002''की धारा 13( 12 )और सहपठित प्रतिभृति हित ( प्रवर्तन )नियम के नियम 9

के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसारे राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन

के अंदर भगतान करने की माँग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भगतान करने में विफल रहे अत: ऋणीयों तथा आम जनता को सचना दी जाती है कि

अधोहस्ताश्चरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13( 4 ) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका मे

उनके सामने दर्शाई गई दिनोंक को ग्रहण कर लिया है।ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार

नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दशाई गई बकाया राशि तथा उन पर व्याज व खर्चों के लिए

आवास फाईनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड ( पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज़ात )** के प्रभार के अध्यर्धीन होगा।

धारा 13 (2) के अन्तर्गत

नोटिस की दिनांक व राशि

11 जुलाई 2023

₹ 1576141/-

बकाया दिनांक

6 जुलाई 2023

यूनिटी स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057,

कार्पोरेट कार्यालय : सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रूज (ई), मुंबई–400 098

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम्, 2002 ("अधिनयम्") तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002

अधोहस्ताक्षरी ने यूनिटी स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के तहत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम

की धारा 13(12) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित

कर्जदार(रों) से संबंधित सूचना(ओं) में वर्णित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। जबकि कुछ सूचनाए अवितरित के रूप में डाक टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हो चुकी हैं, इसलिए कर्जदारों को सूचना देने की वैकल्पिक विधि अर्थात समाचार पत्र में प्रकाशन

दिनांक 24-09-2023

ऋण खाता विवरण

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मॅजिल, साउध एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्टीयल एरिया, जयपर-302020

बंधक संपत्ति का विवरण

समपत्ति स्थित मकान नं. १५१, केशव कुंज, खसरा नं.

821, गणेशरा, तह. मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल** 114.52 वर्ग मीटर

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

यहां नीचे वर्णित अनुसार अचल सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : क्षेत्रफल

पाटहेडा. तहसील – बावल. जिला – रेवाडी. महेन्द्रगढ. हरियाणा–123501

परिमाप 378 वर्ग गज, स्थित वाका पुरानी आबादी लाल डोरा मौजा

पूरव : श्री सूरजभान एवं श्री गक्कन का मकान और रास्ता सरेआम

यूनिटी स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

विक्रय

उद्घोषणा

पश्चिम : श्री विक्रम सिंह एवं श्री राज कुमार का मकान

चौहददी (बंधक दस्तावेजों के अनुसार),

दक्षिण : श्री हरदयाल का मकान

उत्तर : शामलात चौक

## वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉरपोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत और सुरक्षा के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 ( 12 ) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्याज ( प्रवर्तन ) नियम 2002, ने एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्तनोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भगतान करने का आह्वान किया गया था। कर्जदारों द्वारा राशि का भगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी ने उक्तनियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्तअधिनियम की धारा 13( 4 ) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतड्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन वंदर होप फारनेंग्र निर्मित्रेट शास्त्रा के प्रधार के अधीन होगा. जिसकी राशि नीचे ही गई है और उस पर खाज. नागत आहि

क्र. सं.	ऋणी का नाम व खाता संख्या	नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख व प्रकार
1.	श्रीमती माया यादव पत्नी गंगाराम यादव ( आवेदक एवं बंधककर्ता ) श्री गंगाराम यादव पुत्र लख्वा यादव ( सह-आवेदक ) LN29011HP20-21002531	14 जुलाई 2023 ₹13,39,277.50/- बकाया 20 सितम्बर 2023 आगे के ब्याज, लागतें व शुल्क	खसरा नं. 1563/1679/1685, प्लॉट नं. डी-54,गायत्री शक्ति पीठ मंदिर के पास, नेमीनाथ नगर, गांव मौजा गोवाडी, तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान-314038 क्षेत्रफल लगभग 74.3220 वर्ग मीटर	सांकेतिक कब्जा दिनांक 22 सितम्बर 2023
2.	श्री रमेश चन्द सोमानी पुत्र अमर चन्द सोमानी ( आवेदक एवं बंधककर्ता ) श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री रमेश चन्द सोमानी ( सह-आवेदक ) LN29024HE22-23008508	15 जुलाई 2023 १7,70,564.50/- बकाया 20 सितम्बर 2023 आगे के ब्याज, लागतें व शुल्क	पट्टा संख्या 02, खसरा संख्या 801 का भाग, ग्राम एवं ग्राम पंचायत-चाचियावास, पंचायत समिति-अजमेर ग्रामीण, जिला-अजमेर ( राजस्थान )-305023, माप लगभग 1008.00 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा दिनांक 23 सितम्बर 2023
3.	श्री रामवतार मीना पुत्र श्री बसंत लाल ( आवंदक एवं बंधककर्ता ), श्री कपिल मीना पुत्र रामवतार मीना ( सह-आवंदक ), श्री जीतेन्द्र मीना पुत्र रामवतार मीना ( सह-आवंदक ), श्रीमती गुलाब देवी पत्नी रामवतार मीना ( सह-आवंदक ) LN29021HC19-20000716 LN29021HE18-19000363	15 जुलाई 2023 र9,05,296/- बकाया 20 सितम्बर 2023 आगे के ब्याज, लागतें व शुल्क	फ्लॉट नं. बी-266, खसरा नं. 1514, गाँव अलवर नंबर 02, चोरडुंगरी के पास, जयपुर रोड के पश्चिम की ओर, तहसील और जिला।अलवर, राजस्थान-301001। लगभग 1000.62 वर्ग फुट का माप	सांकेतिक कब्जा दिनांक 21 सितम्बर 2023
4.	श्रीमती सपना यादव पत्नी श्री मोहन सिंह ( आवेदक एवं बंधककर्ता ), श्री मोहन सिंह यादव पुत्र अनर सिंह यादव ( सह-आवेदक ) LN29015HP21-22006355	15 जुलाई 2023 ₹21,05,139/- बकाया 20 सितम्बर 2023 आगे के ब्याज, लागतें व शुल्क	प्लॉट नंबर 175 ''आशापूर्णा टाटउनशिप'' ग्राम - अखापुरा खुड़ी, शिवगंज, जिला-सिरोही, राजस्थान- 307027, लगभग 147.22 वर्ग फुट का माप	सांकेतिक कब्जा दिनांक 22 सितम्बर 2023
5.	श्री त्रिलोक चंद लोहार पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद लोहार ( आवेदक और बंधककर्ता ), श्रीमती मोनिका लुहार पत्नी त्रिलोक चंद लोहार ( सह-आवेदक ) LN29023HP20-21002556	14 जुलाई 2023 १8,25,692/- बकाया 20 सितम्बर 2023 आगे के ब्याज, लागतें व शुल्क	पट्टा संख्या बी-39, आराजी नंबर 1001/2, सामरिया नगर, ग्राम- रायला, ग्राम पंचायत- बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा ( राजस्थान )- 311024, लगभग 2400.00 वर्ग फुट का माप।	सांकेतिक कब्जा दिनांक 22 सितम्बर 2023

दिनांक : 23.09.2023, स्थान : जयपुर

अधिकृत अधिकारी, वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

गज, खसरा नंबर 89 में से, ग्राम भंगेल,

बेगमपुर, राजीव कॉलोनी, परगना और

तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर,

उत्तर प्रदेश में स्थित, चौहदी : पूरव में -

प्लॉट, पश्चिम में - श्री जितेंद्र, उत्तर में -

12 फीट चौडी रोड, दक्षिण में - महा सिंह



जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, क प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भूगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें

नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदहारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी

लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया

जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	माग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण	
1	आवेदन नं. DL/JNK/JNKP/A00000078 DL/JNK/JNKP/A000000460 <b>श्री लेखराज सिंह</b> , मकान नं. 1208, वार्ड नं. XII, सोरा कोठी, सब्जी मंडी, दिल्ली—110007 <b>श्री शारदा,</b> मकान नं. 1201, वार्ड नं. XII, सोरा कोठी, सब्जी मंडी, दिल्ली—110007	25.04.2022 18.09.2023 सांकेतिक	दिनांक 01-04-2022 तक + ब्याज	सम्पत्ति नं. 1201, द्वितीय तल (सामने व तरफ का हिस्सा) वार्ड नं. XII शोरा कोठी विपक्ष. रावलपिंडी ज्वैलर्स, सब्जी मंडी दिल्ली – 110007 में स्थित, चौहद्दी: पूरु में – अन्य की संपत्ति, पश्चिम में – अन्य की संपत्ति, उत्तर में – पीछे का शेष भाग दक्षिण में – गली	
2	आवेदन नं. DL/JNK/JNKP/A00000129 DL/JNK/JNKP/A000000435 श्री परवीन कुमार और श्रीमती रीना देवी, दोनों: बी—66, मास्टर कॉलोनी, गरिमा गार्डन, नूर इसन पब्लिक स्कूल के पास, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201005	11000000	दिनांक	फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट नं. 63, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज अर्थात 41.80 वर्ग मी., खसरा नं. 200 मिन, मास्टर एनक्लेव, गाँव पसींदा, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – 15फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में – प्लॉट नं. 62, दक्षिण में – प्लॉट नं. 64	
3	आवेदन नं.	31.12.2022	₹ 30,36,352/-	फ्रीहोल्ड निवास गृह भूमि क्षेत्रफल 50 वर्ग	

22.09.2023

सांकेतिक

दिनांक

29.12.2022

तक + ब्याज

दिनांक

22.02.2023

इत्यादि

42,84,922/-

दिनांक

22.11.2022

तक + ब्याज

इत्यादि

22.11.2022

का मकान

₹ 42,77,332/- आवास फ्लैट नं. 506, सूपर कवर्ड 1450

तक + व्याज सिक्टर-1 (जीएच-08), क्रॉसिंग रिपब्लिक,

201009 में स्थित

वर्ग मी. लगभग, 5वां तल, टॉवर – बी-2,

जयपुरिया अपार्टमेंट, निर्मित प्लॉट नं. 14,

ग्राम बुंडाहेडा, एनएच24, गाजियाबाद यूपी

पलैट नं. 1002, क्षेत्रफल 1450 वर्ग फुट,

10वीं मंजिल, टॉवर-बी2, जयपुरिया

अपार्टमेंट, प्लॉट नं. ६, क्रॉसिंग रिपब्लिक,

ग्राम डूंडाहेडा, एनएच 24, गाजियाबाद,

क्षेत्रफल 900 वर्ग फूट, 15वीं मंजिल,

टॉवर-बी2, जयपुरिया अपार्टमेंट, प्लॉट नं,

14, क्रॉसिंग रिपब्लिक, सैक्टर-1,

उत्तर प्रदेश –201009 में स्थित

सभी: मकान नं. 204, गाँव निठारी, सेक्टर-31 इत्यादि नोएडा, ब्लंड बैंक के पास, मेट्रो, उत्तर प्रदेश, भारत आवेदन नं. DL/JNK/JNKP/A000000043 19.09.2023 DL/JNK/JNKP/A000000723 श्री यशपाल शर्मा, श्री आकाश शर्मा और सुश्री ज्योति सांकेतिक

DL/JNK/JNKP/A000000379

DL/JNK/JNKP/A00000500

श्री विकास कुमार, श्री रणवीर सिंह और श्री शुभलेश,

16.03.2023 र 22,80,389/- सम्पत्ति म्युनिसीपल मकान नं. डब्ल्यू जेड 400, प्लॉट नं. ई-76 / ए, क्षेत्रफल 141 वर्ग गज, ई76बी, प्लॉट क्षेत्रफल 141 वर्ग 09.03.2023 गज, कुल क्षेत्रफल 282 वर्ग गज, गाँव तक + ब्याज शर्मा, सभी: डब्ल्यू जेड-400, राम चौक साध नगर, पालम के रेवेन्यू क्षेत्र में, दिल्ली स्टेट, इत्यादि रटीट नं. 4, पालम कॉलोनी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली में स्थित, चौहदी : पूरब में – अन्य नई दिल्ली, मेट्रो, भारत - 110045 का मकान, पश्चिम में - अन्य का मकान, उत्तर में – 10फीट चौडा रास्ता, दक्षिण में – 10फीट चौडी रोड

आवेदन नं. 22.02.2023 DL/GRN/APLH/A000000109 22.09.2023 श्री गौरव त्यागी और सुश्री सपना त्यागी, दोनों: मकान नं. 513, मदनपुर खादर, भांगर चौक, सरिता विहार, नई दिल्ली, भारत — 110076 आवेदन नं.

30.11.2022 DL/GRN/APLH/A000000055 22.09.2023 श्री शत्रुघन सिंह और सुश्री ज्योत्सना सिंह, <u>दोनों:</u> 134बी / 2के / 1, ब्रिग् मार्ग, बलराम जनरल स्टोर छोटा बघाडा, इलाहाबाद, ग्रामीण, उत्तर प्रदेश, भारत आवेदन नं. ₹ 26,82,332/- | आवास फ्लैट नं. 1505, सुपर कवर्ड 30.11.2022

DL/GRN/APLH/A000000085 22.09.2023 श्री मनोज कुमार शर्मा और सुश्री नीत् शर्मा, दोनों: सांकेतिक फ्लैट नं. डी-4, चतुर्थ तल, प्लॉट नं. 12, ओल्ड पालम रोड, चंद्रा पार्क, द्वारका मोड, काकरोला, एन. एस.आई.टी, मेट्रो, दिल्ली - 110078

श्री वसीम अकरम और सुश्री हुसनारा खातून, दोनों:

फ्लैट नं. 102, पहली मंजिल, एलएचएस साइड

फ्लैट, रिहायशी कॉलोनी, एनआरआई अपार्टमेंट

सेक्टर - 106, नोएडा खसरा नं, 73, ग्राम भंगेल,

तक + ब्याज आवेदन नं. 03.09.2022 HR/NCH/GURH/A000000440 22.09.2023 HR/NCH/GURH/A000000729

इत्यादि (जीएच-06) ग्राम डुंडाहेडा, एनएच 24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201009 में र 31,58,243/- रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. 102, प्रथम तल, जिसका सुपर क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट 102. 19 वर्ग मी. बिना छत के अधिकार के. 18.08.2022 खसरा नं. 73, गाँव भंगेल बेगमपुर, परगना तक + ब्याज इत्यादि और तहसील ददराई, जिला गौतम बुद्ध

नगर, यू.पी. में स्थित

बागमपुर, गाँतम नगर, शहरी, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत - 201204 प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 23-09-2023, स्थान : गाजियाबाद

सांकेतिक

www.readwhere.com

www.evotingindia.com पर उपलब्ध है, तथा

स्थानः नई दिल्ली

